

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27—जुलाई 3, 2015 (आषाढ़ 6, 1937)

No- 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27— JULY 3, 2015 (ASADHA 6, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 9 जून 2015

संख्या: ओ.दो. 7433/2015—कार्मिक.डी.ए.—4—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री नेमपाल सिंह, उप कमाण्डेन्ट (इरला—7433), उत्तरी सैक्टर मुख्यालय के 01/06/2015 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01/06/2015 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

ए. वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा
भुवनेश्वर, दिनांक 5 जून 2015

सं. स्था. आ. सं. 14—दिनांक 01.06.2015 के का.आ.ग. सं. 151 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप श्री राधा दामोदर महान्ति, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 01.06.2015 पूर्वाह्न से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं उनके वरियता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी-2) रु. 9,300—34,000/— ग्रेड वेतन रु. 5,400/— पर महालेखाकार ने सहर्ष प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

दिनांक 01.06.2015 के का.आ.ग. सं. 151 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

आर. राधाकृष्णन
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 10 जून 2015

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री षण्मुखम टी के	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2015 (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती सीता एस	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2015 (अधिवर्षिता)

ह./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जून 2015

सं०-ए-4/09/2015—प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क/आयकर/पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को वेतन बैंड-2 रु. 9300—34800 + ग्रेड पे रु. 4800/— में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से अथवा आगामी आदेशों तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है:—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्व श्री	
1.	राकेश कुमार संतोष	25.08.2014
2.	सोमनाथ चौधरी	30.09.2014
3.	श्रीमति उर्मि मुखर्जी	17.09.2014
4.	रत्न लाल ठाकुर	20.10.2014
5.	जयन डौमिनिक	04.12.2014
6.	अरुण के. कुपन्नागारी	16.01.2015
7.	विनोदन के.	19.01.2015
8.	विनोद एम. पी.	12.02.2015
9.	अरुण कुमार	16.03.2015
10.	श्रीमति अकांक्षा अवस्थी	06.04.2015
11.	एस. विद्या सागर	11.05.2015
12.	आजाद एहमद दार	18.05.2015
13.	श्रीमति गुरप्रीत कौर सैणी	18.05.2015
14.	राज कुमार	19.05.2015

सत्येंद्र मथुरिया, भा. रा. से.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-4/09/2015—प्रवर्तन निदेशक, एतद्द्वारा, श्री सीता राम मीणा, सहायक पुलिस आयुक्त, डी. ए. एन. आई. सी. एस. को वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 5400/- में दिनांक 12-09-2014 से अथवा आगामी आदेशों तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सत्येंद्र मथुरिया, भा. रा. से.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 5 जून 2015

सं. ए-19011/266/2015 स्था. ए.—मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर श्री रंजन कुमार सिन्हा, खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दि. 05.06.2015 (पूर्वाहन) से मुख्य खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एन. डहंगा
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 5 जून 2015

सं. 26/1/2015-सीसीएस/7421—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाईयों में कार्यरत वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पीबी-3 रु.15600-39100/- + ग्रेड वेतन रु. 5400/-) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दी गई तारीख से आगामी आदेश होने तक प्रभावी रूप में उप लेखा नियंत्रक (पीबी-3 रु.15600-39100/- + ग्रेड वेतन रु.6600/-) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	इकाई	उप लेखा नियंत्रक के रूप में पदोन्नति की तारीख
1.	श्री लक्ष्मण हुनु पवार	एईआरबी, मुंबई	16.03.2015
2.	श्री गिरीश चंद्रा	भापासं, कोटा	17.04.2015

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 6 जून 2015

सं. नाईस/काप्रभ-II/पदो.14/2015/1042—राष्ट्रपति द्वारा, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड में और प्रभावी तारीख से इसी इकाई में, स्थानापन्न हैसियत में, अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	ग्रेड से	पदोन्नति	ग्रेड को	पदोन्नति की तारीख
वैज्ञानिक अधिकारी/ई का वेतनमान/ग्रेड पे-रु. 15600-39100/7600					
1	2	3	4	5	
01	टी. लक्ष्मी रेड्डी	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई		01.07.2014
02	जे.वी. रमणा मूर्ति	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई		01.07.2014
03	के. प्रभाकर	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई		01.07.2014
04	आर.एस.अंभोरकर	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई		01.07.2014
05	वी. रविंदर रेड्डी	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई		01.07.2014
06	वी. दिनाकर	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई		01.07.2014

1	2	3	4	5
07	टी. तन्मय श्रीचंदन	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
08	वसंत रामा मूर्ति	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
09	के. लक्ष्मी	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
10	सुमन कुमार	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
11	जी. मलिकार्जुन	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
12	शुभप्रदा पावनी	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
13	आर. एन. पाठक	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
14	रौशन सिंह चौहान	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
15	ए. हरि बाबू	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
16	बी.वी. रमण मूर्ति	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
17	ए. वेंकट राजा	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
18	पी. रंगनाथ प्रसाद	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
19	सुशांत निगम	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
20	सी. करुप्पास्वामी	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
21	डॉ. शलभ सक्सेना	वैज्ञा.अधि./डी	वैज्ञा.अधि./ई	01.07.2014
वैज्ञानिक अधिकारी/डी का वेतनमान/ग्रेड पे—रु. 15600—39100/6600				
01	पी. पवन कुमार	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
02	गजेन्द्र मेवाड़ा	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
03	शिबाशंकर दास	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
04	के. शिरीशा	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
05	बिपत्तरन हलदर	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
06	एम. अनिल कुमार रेड्डी	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
07	मंजु मुरली	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
08	एन. विजय कुमार	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
09	ए.वी.कृष्णा	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
10	जी. यूगेंदर	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
11	रोहितशवा शर्मा	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
12	रमन कुमार	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	02.07.2014
13	वी. रविंद्र बाबु	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	06.07.2014
14	एम. विजय लक्ष्मी	वैज्ञा.अधि./सी	वैज्ञा.अधि./डी	01.07.2014
वैज्ञानिक अधिकारी/सी का वेतनमान/ग्रेड पे—रु. 15600—39100/5400				
01	के. देवेंदर	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा.अधि./सी	05.07.2014
तकनीकी अधिकारी/सी का वेतनमान/ग्रेड पे—रु. 15600—39100/5400				
01	वाई. भीमाशंकर	तकनी.अधि./बी	तकनी.अधि./सी	01.07.2014

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी—III

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400 085, दिनांक 8 जून 2015

सं. पीडी/ 7(7)/2015/ भर्ती-IV / (एसओ/डी)/ईटीजी/15/6075—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री दिनेश तटतुवलपिल वासुदेवन, स्टेशन अधिकारी/बी पे बैंड रु. 15600-39100/- + ग्रेड पे रु. 5400 को स्टेशन अधिकारी/सी के पद पर पे बैंड रु. 15600-39100/- + ग्रेड पे रु. 6600 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम. वी. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(7)/2015-भर्ती-IV/एसओ(डी)/ईटीजी/15/6075—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों ग्रेड 'सी' पे बैंड पीबी-3 रु. 15600-39100/- + ग्रेड पे रु. 5400/- को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड पीबी-3 रु. 15600 - 39100/- + ग्रेड पे रु. 6600/- के वेतनमान में 1 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	श्री सरोज कुमार यादव
2	श्री बिश्वनाथ राय चौधरी
3	श्री मानस रंजन सेनापती
4	श्री अनिल कुमार
5	श्री चन्द्रजीत यादव
6	श्री अशोक कुमार
7	डा(श्रीमती) निवेदिता प्रकाश खैरणर
8	श्रीमती जिलजु रतीष
9	श्री संतोषकुमार गंगाराम सावंत
10	श्री अमित कुमार वर्मा
11	श्री ललित मोहन
12	श्रीमती अंजली प्रभु
13	श्री रामजीत यादव

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(7)/2015 भर्ती-IV/(एसओ/डी)/ईटीजी/15/6075—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड 'सी' पे बैंड रु. 15600-39100/- + ग्रेड पे रु. 5400 को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड रु. 15600 - 39100/- + ग्रेड पे रु. 6600 के वेतनमान में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाये गये तिथी के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री अशोक कुमार यादव	01.07.2014
2	कुमारी चन्द्रानी नायक	01.07.2014
3	श्री विपीन कुमार शर्मा	01.07.2014
4	श्री मधुसूदन घोष	01.07.2014

(1)	(2)	(3)
5	श्री राजीव कुमार झा	01.07.2014
6	श्री संजय चन्द्र अन्डोला	01.07.2014
7	श्री लव मिश्रा	01.07.2014
8	श्री बितान घोषाल	01.07.2014
9	श्री दिलीप कुमार नेहरू	01.07.2014
10	श्री हर्ष हेमानी	01.07.2014
11	श्री रवि के गुप्ता	01.07.2014
12	श्री मनोज कुमार मिश्रा	01.07.2014
13	श्री रूपेश कुमार सिंह	01.07.2014
14	श्री अभिषेक कुमार	01.07.2014
15	श्री सेलवम आनंद	01.07.2014
16	श्रीमती अनुषा ताटी	01.07.2014
17	श्रीमती बहुलकर प्रतिभा शरद	01.07.2014
18	कुमारी गरिमा पाण्डेय	01.07.2014
19	श्री विपिन कुमार काबरा	01.07.2014
20	श्री नवाज दस्तगीर शिकलगार	01.07.2014
21	कुमारी रेम्पा हरीदासन	01.07.2014
22	श्री नवीन कुमार	01.07.2014
23	कुमारी बितान घोष	21.07.2014
24	श्री नितेश गोस्वामी	01.07.2014
25	श्री जगदीश कोटा	01.07.2014
26	डा बसन्त कूमार दास	01.07.2014
27	श्री अमित कुमार	01.07.2014
28	श्रीमती संध्या मोहन	01.07.2014
29	श्री शिव शंकर सिकदर	01.07.2014
30	श्री कौशीक सन्याल	01.07.2014
31	श्री चयन बैनर्जी	01.07.2014
32	श्री दीपक चन्द्रा	01.07.2014
33	श्री दिलीप चेट्टियांपरंबिल संकरन	01.07.2014
34	श्रीमती मनिषा रवींद्र लोखंडे	07.07.2014
35	श्री नीरज गुप्ता	01.07.2014
36	श्री नवमणि मल्लिकार्जुनन्	01.07.2014
37	श्री अर्जुन सरकार	01.07.2014
38	कुमारी ऋचा शुक्ला	01.07.2014
39	श्री सुदीप कुमार सरकार	01.07.2014

(1)	(2)	(3)
40	श्री नरेन्द्र कुमार सेठी	01.07.2014
41	श्री अनीष पण्डार पुरयिल	01.07.2014
42	श्री सचिन कामत	01.07.2014
43	श्रीमती आकांक्षा जैन	01.07.2014
44	श्री कुलतिन्दे किझक्कातिल विस्वनाथन विमलनाथ नायर	01.07.2014
45	श्रीमती सुरेखा उदय साने	01.07.2014
46	श्री अम्भी रायचौधुरी	01.07.2014
47	श्रीमती मी. कोदै नाचियार	01.07.2014
48	श्री मिश्र नलिनी रंजन	01.07.2014
49	श्री शिवकुमार के एस	01.07.2014
50	श्रीमती श्रीदेवी एन	01.07.2014
51	श्री अमिस शंकर	01.07.2014
52	श्री बिनोद कुमार सिंह	01.07.2014
53	श्री प्रजीष कुमार नदुमुरि चन्द्रन	01.07.2014
54	श्री अब्दुल वाहिद	01.07.2014
55	श्री अमित खट्टर	01.07.2014
56	कुमारी अरुंधती बुट	01.07.2014
57	श्री दीपक नाफड़े	01.07.2014
58	श्री सुभंकर भंडारी	01.07.2014
59	श्री तत्सत द्विवेदी	01.07.2014
60	श्री आलोक प्रकाश	01.07.2014
61	श्री अरविन्द कुमार	01.07.2014
62	श्री धीमान चक्रवर्ती	01.07.2014
63	श्री तेजिंदर पाल सभरवाल	01.07.2014
64	डा कट्टीमन्नी अशोक	01.07.2014
65	श्रीमती अनघा अजय मुलीक	01.07.2014
66	डा समेन्द्र यादव	01.07.2014
67	कुमारी दिव्या कोहली	01.07.2014
68	श्री शिवकुमार उलगनाथन	01.07.2014
69	श्री नयशील वर्धन	01.07.2014
70	श्री रजाक सैयद	01.07.2014
71	कुमारी रूमू हलदर	01.07.2014
72	कुमारी पुनम अ हांडे	10.03.2015
73	श्री अभिनव कुमार	01.07.2014

(1)	(2)	(3)
74	श्री असीम पाल	01.07.2014
75	श्री घनश्याम कुमार प्रजापति	01.07.2014
76	श्री दीपक रावत	01.07.2014
77	श्री जिनिषकुमार पुरुषन	01.07.2014
78	श्री सत्येन्द्र प्रसाद राय	01.07.2014
79	श्री तपन कुमार सावर्ण	01.07.2014
80	श्रीमती पूनम प्रकाश जगेशिया	01.07.2014
81	श्री अश्वनी कुमार	07.07.2014
82	श्रीमती दिप्ती जयेश शाह	01.07.2014
83	श्रीमती वैभवी विश्वजीत राऊत	01.07.2014
84	श्री निमाई पाठक	01.07.2014
85	श्री प्रवीण कुमार वर्मा	01.07.2014
86	श्री सब्यासाची पात्र	01.07.2014
87	श्री अभिमन्यु चौधरी	01.07.2014
88	श्री सीएच सन्तोष सुबुधी	01.07.2014
89	श्री प्रतीक सक्सैना	01.07.2014
90	श्री पुन्ना राजशेखर	01.07.2014
91	श्री अविनाश मोहाराणा	01.07.2014
92	श्री प्रदीप पाण्डे	01.07.2014
93	श्रीमती चंद्रकला संजय घोलवे	01.07.2014
94	श्री देवव्रत त्रिपाठी	01.07.2014
95	श्री कौशिक भांडारी	01.07.2014
96	श्री बलराम सिंह	01.07.2014
97	श्री मलय घोष	01.07.2014
98	श्री राकेश अंबिका रामचंद्रन	01.07.2014
99	डा(श्रीमती) संगीता एन	01.07.2014
100	श्री अंचल बाकीवाला	01.07.2014
101	श्री राजेश कुमार चौरसिया	01.07.2014
102	श्री तरुण कुमार अग्रवाल	01.07.2014
103	श्री बिस्वजीत मन्ना	01.07.2014
104	श्री चन्द्र प्रकाश केवट	01.07.2014
105	श्री प्रवीण कुमार	01.07.2014
106	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव	01.07.2014
107	श्रीमती वी कुसुम वत्स	01.07.2014

(1)	(2)	(3)
108	श्री अमितांशु मिश्र	01.07.2014
109	श्री अरुनप्रसाथ वी	01.07.2014
110	श्री अभिजित दास	01.07.2014
111	श्री सृजित बंद्योपाध्याय	01.07.2014
112	श्री अमर दत्त पन्त	01.07.2014
113	श्री प्रतीप मित्र	01.07.2014
114	श्रीमती प्रियंका जगदीश रेड्डी	01.07.2014
115	श्री मोहम्मद अल्ताफ	01.07.2014
116	श्री सागर चन्द्रा	01.07.2014
117	श्री राज कुमार मण्डल	01.07.2014
118	श्री अजित बालन	01.07.2014
119	श्री अनिल कुमार	01.07.2014
120	श्री संदीप कुमार सिंह	01.07.2014
121	श्री शेंडगे शिवाजी रामदास	01.07.2014
122	श्री कुमार अविनाश	07.07.2014
123	श्री हनी जैन	01.07.2014
124	श्री मादा चैतन्य कुमार	01.07.2014
125	श्री महेन्द्र कुमार	01.07.2014
126	श्री राज कुमार साह	01.07.2014
127	श्री शशिकुमार दामोदरन	01.07.2014
128	श्रीमती हेलन जयराज	01.07.2014
129	श्री संकरराव नीरुकोंड	01.07.2014
130	श्री सिनु चन्द्रन	01.07.2014

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(6)/2015/भर्ती-IV/(एसओ/ई)/ईटीजी/15/6102—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित अधिकारियों/इंजीनियरों पे बैंड रु. 15600 - 39100/- + ग्रेड पे रु. 6600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'ई' के पद पर पे बैंड रु. 15600 - 39100/- + ग्रेड पे रु. 7600/- के वेतनमान में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 4 में दर्शाये गये तिथि के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शिव मुकुन्द	एसओ डी	01.07.2014
2.	श्रीमती किंचित सक्सेना	एसओ डी	01.07.2014
3.	श्री राजेश कुमार मीनीआ	एसओ डी	01.07.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री सुहास शशीकांत कुंभारे	एसओ डी	01.07.2014
5.	श्री अमित कुलश्रेष्ठ	एसओ डी	01.07.2014
6.	श्री जयप्रकाश देवदास	एसओ डी	01.07.2014
7.	श्री रामचंद्र भीमराव चव्हाण	एसओ डी	01.07.2014
8.	श्री प्रभात कुमार स्वाई	एसओ डी	01.07.2014
9.	श्री पानुगन्ति वेंकट सुब्रह्मण्य आदित्या	एसओ डी	01.07.2014
10.	श्री मृत्युन्जय त्यागी	एसओ डी	01.07.2014
11.	श्रीमती सुचेता चटर्जी	एसओ डी	01.07.2014
12.	कुमारी रमनीक सिंह	एसओ डी	01.07.2014
13.	श्रीमती मंजुषा मुकेश महाशब्दे	एसओ डी	01.07.2014
14.	श्री पिसे प्रविण विलास	एसओ डी	01.07.2014
15.	श्री वीरेन्द्र कुमार साहू	एसओ डी	01.07.2014
16.	श्री सॅम फिलिप जॉन	एसओ डी	01.07.2014
17.	श्री लालम चिट्टि नायडु	एसओ डी	01.07.2014
18.	डा कान्हू चरण बारिक्	एसओ डी	01.07.2014
19.	श्री चाँदोरकर निर्भय	एसओ डी	01.07.2014
20.	श्री इन्दर जीत सिंह	एसओ डी	01.07.2014
21.	श्रीमती उर्वशी करनानी गौर	एसओ डी	01.07.2014
22.	श्री अंजि रेड्डी डि	एसओ डी	01.07.2014
23.	श्री हुनैद जोहेर फानी	एसओ डी	01.07.2014
24.	श्री अंशुल कुमार	एसओ डी	01.07.2014
25.	श्री विकास तेवतिया	एसओ डी	01.07.2014
26.	श्री संदीप नायर आर.	एसओ डी	01.07.2014
27.	श्री तेजस रमाकान्त राणे	एसओ डी	01.07.2014
28.	श्री अशोक कुमार रानडे	एसओ डी	01.07.2014
29.	श्री गुरपरताप सिंह	एसओ डी	01.07.2014
30.	श्रीमती नमिता सिंह	एसओ डी	01.07.2014
31.	श्रीमती रश्मिता दास	एसओ डी	01.07.2014
32.	श्री सौरभ कुमार नीमा	एसओ डी	01.07.2014
33.	श्रीमती शिखा श्रीवास्तवा	एसओ डी	01.07.2014
34.	श्री सौरभ मुखोपाध्याय	एसओ डी	01.07.2014
35.	श्री अंशुमान देवीदास वडनेरकर	एसओ डी	01.07.2014
36.	श्री प्रसन्न कुमार त्रिपाठी	एसओ डी	01.07.2014
37.	श्री डॉनल मार्शल नरोन्हा	एसओ डी	01.07.2014
38.	श्रीमती सुमना पाल	एसओ डी	01.07.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	श्रीमती मेरी गोपालकृष्णन	एसओ डी	01.07.2014
40.	डा प्रशांत वामन नाईक	एसओ डी	01.07.2014
41.	श्री संभाजी दोधा चौधरी	एसओ डी	01.07.2014
42.	श्री सुमित गुप्ता	एसओ डी	01.07.2014
43.	श्रीमती सुरभि वधावन	एसओ डी	01.07.2014
44.	श्री निशांत न पटेल	एसओ डी	01.07.2014
45.	श्री ब्रिज कुमार	एसओ डी	01.07.2014
46.	श्री मनीष कुमार मिश्र	एसओ डी	01.07.2014
47.	श्रीमती सुगंधी सुरेश	एसओ डी	01.07.2014
48.	डा सुनिल सि	एसओ डी	01.07.2014
49.	श्रीमती वितिशा सुमन डागरे	एसओ डी	01.07.2014
50.	श्री बिंदुमाधवन सुरेश	एसओ डी	01.07.2014
51.	श्री सोमनान लियाकत अलिखान असन अली	एसओ डी	01.07.2014
52.	श्री वेंकटेश संतानकृष्णन	एसओ डी	01.07.2014
53.	श्री वेंकटरामन सुब्बरामन	एसओ डी	01.07.2014
54.	श्री सुशील कुमार टीबड़ेवाला	एसओ डी	01.07.2014
55.	श्रीमती के आर श्रीदेवी	एसओ डी	01.07.2014
56.	श्री रामकुमार स्वामीनाथन	एसओ डी	01.07.2014
57.	श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव	एसओ डी	01.07.2014
58.	डा(श्रीमती) वृंदा सुनील यलमाली	एसओ डी	07.07.2014
59.	श्रीमती सोनल शर्मा	एसओ डी	01.07.2014
60.	श्री एल मरिया अन्टोनी	एसओ डी	01.07.2014
61.	श्री चन्दन कुमार	एसओ डी	01.07.2014
62.	श्री दास ए जे ए	एसओ डी	01.07.2014
63.	श्री के श्रीनिवास राव	एसओ डी	01.07.2014
64.	श्री एस मुकुंदन	एसओ डी	01.07.2014
65.	श्री पवन कुमार सिंह	एसओ डी	01.07.2014
66.	श्री बीमनपल्लि राजकुमार	एसओ डी	01.07.2014
67.	श्री गजाड श्रीनिवास	एसओ डी	01.07.2014
68.	श्री शरद कुमार श्रीवास्तव	एसओ डी	01.07.2014
69.	श्री कल्याण कुमार नन्दी	एसओ डी	01.07.2014
70.	श्री सबवट किसन	एसओ डी	01.07.2014
71.	डा सेलवाकुमार जेयप्रकाशम	एसओ डी	01.07.2014
72.	श्री नीतेश शर्मा	एसओ डी	01.07.2014
73.	श्री आन्नैकुट्टी तमिलरसन	एसओ डी	01.07.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
74.	श्री वेलमुरुगन पलनीसामी	एसओ डी	01.07.2014
75.	श्री राजीब कर	एसओ डी	01.07.2014
76.	श्री जालींदर कुंडलीक धोंडकर	एसओ डी	01.07.2014
77.	श्री अमन कुमार उजवने	एसओ डी	01.07.2014
78.	श्री श्याम सुन्दर रन्गु	एसओ डी	01.07.2014
79.	डा(श्रीमती) अदिती प्रसाद चौधरी	एसओ डी	01.07.2014
80.	डा(श्रीमती) एम सगंती	एसओ डी	01.07.2014
81.	डा(श्रीमती) सायली स्वानंद भेडसगांवकर	एसओ डी	01.07.2014
82.	श्री रूपेश कुमार चौधरी	एसओ डी	01.07.2014
83.	श्रीमती अर्चना एन राय	एसओ डी	01.07.2014
84.	श्री लक्ष्मण सिंह दानू	एसओ डी	01.07.2014
85.	श्री पवन कुमार नेत्रकंटी	एसओ डी	01.07.2014
86.	श्री रमन सहगल	एसओ डी	10.07.2014
87.	श्री सनत कुमार पंडित	एसओ डी	01.07.2014
88.	श्री स्टानली एम के	एसओ डी	01.07.2014
89.	श्री प्रदीप सामुझ	एसओ डी	01.07.2014
90.	श्री बिरंछि मुनि त्रिपाठी	एसओ डी	01.07.2014
91.	श्री नवनाथ एकनाथ मवाल	एसओ डी	01.07.2014
92.	श्री पलाश कुमार मल्लिक	एसओ डी	01.07.2014
93.	श्री एम पारिवल्लल	एसओ डी	01.07.2014
94.	श्री प्रदीप पांडियन	एसओ डी	01.07.2014
95.	डा. नितिन मोतीलाल गांधी	एसओ डी	01.07.2014
96.	श्री अरिजीत सेनगुप्ता	एसओ डी	01.07.2014
97.	श्रीमती संहिता चौधुरी	एसओ डी	01.07.2014
98.	श्री देबाशीष बनर्जी	एसओ डी	01.07.2014
99.	श्री अभिषेक बोराना	एसओ डी	01.07.2014
100.	श्री अरिंदम खाँ	एसओ डी	01.07.2014
101.	श्री आशुतोष महान्ति	एसओ डी	01.07.2014
102.	श्री आशुतोष काबरा	एसओ डी	01.07.2014
103.	श्री दिनेश कुमार मौर्य	एसओ डी	01.07.2014
104.	श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय	एसओ डी	01.07.2014
105.	श्री कपिल बोडखा	एसओ डी	01.07.2014
106.	श्री सुबल चन्द्र हानड़ा	एसओ डी	01.07.2014
107.	श्री कार्तिकेय कुमार यादव	एसओ डी	01.07.2014
108.	श्रीमती कंचन कुशवाहा	एसओ डी	04.08.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
109.	डा(श्रीमती) उमा शरद भारतीय	एसओ डी	01.07.2014
110.	श्री जितेन्द्र नाथ दूबे	एसओ डी	01.07.2014
111.	श्री संतु कैती	एसओ डी	01.07.2014
112.	श्री सोलापूरकर महिपत नारायण	एसओ डी	01.07.2014
113.	श्री अभिषेक सिंह	एसओ डी	01.07.2014
114.	डा अशोक एम	एसओ डी	01.07.2014
115.	श्री इम्तियाज़ अली सिद्दिकी	एसओ डी	01.07.2014
116.	श्री कन्हैया सिंह	एसओ डी	01.07.2014
117.	श्री एन अलगरसामी	एसओ डी	01.07.2014
118.	डा(श्रीमती) रा तमिलरसि	एसओ डी	01.07.2014
119.	डा संतोष पि घादगिने	एसओ डी	01.07.2014
120.	श्री विशाल दिलीपराव डेकाटे	एसओ डी	01.07.2014
121.	श्री अभिषेक कुमार सिंह	एसओ डी	01.07.2014
122.	श्री अनुज सोनी	एसओ डी	01.07.2014
123.	श्री रामकृष्ण शेषमणी विश्वकर्मा	एसओ डी	01.07.2014
124.	श्री रविन्दर राजाराम भिंगारे	एसओ डी	01.07.2014
125.	श्री संदीप दत्तात्रय कणसे	एसओ डी	01.07.2014
126.	श्री सुदेश महेश त्रिपाठी	एसओ डी	01.07.2014
127.	श्री अंकुर साहा	एसओ डी	01.07.2014
128.	श्री इंदर कुमार	एसओ डी	01.07.2014
129.	श्री रोहित कुमार	एसओ डी	01.07.2014
130.	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	एसओ डी	01.07.2014
131.	श्री कपिल देव	एसओ डी	01.07.2014
132.	श्री अनिल पत्रोस	एसओ डी	01.07.2014
133.	श्री देवेन्द्र सिंह सैनी	एसओ डी	01.07.2014
134.	श्री विलास गोविंद शेलार	एसओ डी	01.07.2014
135.	श्री जीगर विजयकुमार पटेल	एसओ डी	01.07.2014
136.	श्री मनोज कुमार त्रिपाठी	एसओ डी	01.07.2014
137.	श्री पी वाय भोसले	टीओ डी	01.07.2014
138.	श्री पारितोष पाण्डेय	एसओ डी	01.07.2014
139.	श्री गोखले ओंकार सुरेश	एसओ डी	01.07.2014
140.	श्री राजीव कुमार वर्मा	एसओ डी	01.07.2014
141.	श्री रामजीभाई मावजीभाई परमार	एसओ डी	01.07.2014
142.	श्री दीपक कुमार आकड़	एसओ डी	01.07.2014
143.	श्री जिस रोमल जोस	एसओ डी	01.07.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
144.	श्री मनीष चोपड़ा	एसओ डी	01.07.2014
145.	श्री संजय सिंह	एसओ डी	01.07.2014
146.	डॉ टी एस सुधीर	एसओ डी	01.07.2014
147.	श्री तन्मय दास	एसओ डी	01.07.2014
148.	श्री सन्तोष पाण्डेय	एसओ डी	01.07.2014
149.	श्रीमती झिमली पॉल गुईन	एसओ डी	01.07.2014
150.	श्री शेख अब्दुल कादर	एसओ डी	11.07.2014
151.	श्री अबिन सी जोई	एसओ डी	01.07.2014
152.	श्री सुनिल सदाशिव कणसे	एसओ डी	01.07.2014
153.	कुमारी टि स्वर्णा	एसओ डी	01.07.2014
154.	श्री मयंक कुमार गुप्ता	एसओ डी	01.07.2014
155.	श्री कुलश्रेष्ठ सुलेन्द्र भूषण	एसओ डी	01.07.2014
156.	श्री लाड शशीकांत चंद्रकांत	एसओ डी	01.07.2014
157.	श्री मिश्रा शक्ति कुमार	एसओ डी	01.07.2014
158.	डा मनोरंजन घोष	एसओ डी	01.07.2014
159.	डा पुरुषोत्तम झा	एसओ डी	01.07.2014
160.	श्री संकेश राम	एसओ डी	01.07.2014
161.	श्री बिस्वजीत स्वाइन	एसओ डी	01.07.2014
162.	श्री अमीय रंजन साहू	एसओ डी	01.07.2014
163.	श्री अशोक कुमार	एसओ डी	18.07.2014
164.	श्री मात्यु डोमिनिक	एसओ डी	01.07.2014
165.	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर	एसओ डी	01.07.2014
166.	श्री आर अनबलगन	एसओ डी	01.07.2014
167.	श्री आनन्द कुमार राय	एसओ डी	01.07.2014
168.	श्री देवेश कुमार गुप्ता	एसओ डी	01.07.2014
169.	श्री जैनेन्द्र नारायण	एसओ डी	01.07.2014
170.	श्री रामजीत शर्मा	एसओ डी	01.07.2014
171.	श्री सुमन लाल	एसओ डी	01.07.2014
172.	श्री गौरव मिश्रा	एसओ डी	01.07.2014
173.	श्री विभोर शर्मा	एसओ डी	01.07.2014
174.	श्री चंद्रहास शिवानंद पावस्कर	एसओ डी	01.07.2014
175.	श्री शिरीष केशव पोळ	एसओ डी	01.07.2014

एम. वी. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर—208002, दिनांक 4 जून 2015

सं.: 560(5)/2244—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	आकाश गंगा मोटल्स एण्ड रिसार्टस लिमिटेड	U55101UP2008PLC036465	C44924900
2	आकाश गंगा बिल्डटेक लिमिटेड	U45201UP2008PLC036470	C44925626
3	आकाश गंगा इण्टरटैमेंट लिमिटेड	U92490UP2008PLC036469	C44926566
4	फ्लोरिड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP1995PTC018187	C45430881
5	दिव्या एपीआर मेडीसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U52310UP2008PTC036262	C45713708
6	व्हाइट स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC054460	C46727640
7	एसएनए कान्सट्रक्शन एण्ड प्रापर्टीस प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC049660	C47316369
8	आरिनेस्ट सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2014PTC061904	C47334446
9	लखनउ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037185	C47404199
10	वाराणसी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037184	C47411277
11	अरून एण्ड रजत ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2010PTC040791	C47608450
12	एसकेएस इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2008PTC035453	C47644810
13	यूआर कैरियर सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC049027	C47757950
14	आहान बिजनेस वेन्चरस प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2009PTC036821	C47762679
15	फोकस इन्फोमीडिया सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PTC040797	C47921994
16	कृषीनिधि हीबर्ड सीडस प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2013PTC057547	C47926860
17	ग्रीनलीफ इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062965	C47909494
18	बी एन एन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200UP2006PTC032583	C47948351
19	आर जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1984PTC006809	C47952239
20	श्री क्रिशन शर्मा ट्रेवल्स एण्ड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1991PTC012858	C47969118
21	साल्व्स एण्ड स्पिरिटस इंश्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2005PTC031086	C47977046
22	फैक्टम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC045744	C48004063
23	वेलडन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033269	C48024046
24	वेलडन इन्फ्रास्ट्रक्चर लखनउ प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC031176	C48024673

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
25	रेडिक्स नैनो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2013PTC059888	C48057723
26	उमापति एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC052983	C48100473
27	नीलकंठ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC050464	C48100523
28	रजतलक्ष्मी इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055147	C48166086
29	त्रिपाठी इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2000PTC025066	C48196455
30	नवरात्र बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP1988PTC010304	C48201677
31	ग्लोबल फ्रैंड्स फ्लोटस गलास प्राइवेट लिमिटेड	U26990UP2014PTC063992	C48202576
32	बर्टन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25199UP1982PTC005825	C48226690
33	अभयलोक आनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC043466	C48274773
34	लीजेण्ड ग्रीन पार्वस प्राइवेट लिमिटेड	U11115UP1974PTC004024	C48351837
35	क्लिफ मोबाइल्स लिमिटेड	U72400UP2008PLC034458	C48354005
36	नम्या ह्यूमेन रिसोर्सेस एण्ड सिक्यूरिटी सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC040618	C48376230
37	मैटोक्स सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2010PTC041807	C48384382
38	एमरोनेक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048397	C48385017
39	औराफोन हेल्थ इन्फार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051960	C48388953
40	सरवियो स्टेफिंग सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051305	C48446421
41	पीएचके इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC059313	C48458475
42	एसवी आरनामेंट्स एण्ड फिनसेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2011PTC046453	C48426985
43	बेटा फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	U19201UP2006PTC031342	C48494207
44	नावेल इरा इंटीरियो एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2008PTC035751	C48513956
45	पिनैकी इंफोटेक एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2010PTC042704	C48515191
46	प्रोलक इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053824	C48520183
47	गुनगुन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058913	C48530885
48	एक्सपर्ट कनेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058865	C48552459
49	हीवीमाइण्ड आउटसोर्स सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74991UP2007PLC033217	C48567887
50	हैग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046229	C48576375
51	मानसी इश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U66000UP2007PTC033980	C48642193
52	सवर्ण लाइफ स्पेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055651	C48692727

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
53	फेरोंप्राइम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054909	C48704506
54	क्लीन साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC052276	C48720783
55	सान्वी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC043968	C48746549
56	ब्राइडिया कंसल्टेण्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC043708	C48844948
57	युवी इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51220UP2006PTC031992	C48895304
58	मैक्समिन हालीडेस प्राइवेट लिमिटेड	U63090UP2013PTC056813	C48928287
59	ग्लोबलहेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC059581	C48945075
60	सिधान्त इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062588	C48958359
61	इफाजोन कलेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2011PTC047330	C48956437
62	एसओबी रियल स्टेट इण्डिया लिमिटेड	U70100UP2013PLC061233	C48971642
63	डीआर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC044079	C48976989
64	मेटकाम कोमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2005PTC030210	C49013691
65	एकवाफलो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2014PTC062145	C49051501
66	कैजन इनर्जी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056111	C49063803
67	इनेवैजन ई सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2010PTC039938	C49073364
68	भदोही पेट्रोलियम डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U50200UP2014PTC063605	C49135783
69	कैरियर कंसल्टेन्सी सर्विसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U74210UP2000PTC025402	C49144553
70	हयूमेन केयर मेडिकोस प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2011PTC044561	C49147010
71	प्रकाश डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1988PTC010059	C49158405
72	कमल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड	U24231UP1996PTC019294	C49185887
73	गोल्डन टी एण्ड फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2009PTC037566	C49185911
74	पीकेजी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC058523	C49301880
75	अर्वाचीन कम्प्यूटर एण्ड एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC044192	C49360944
76	एसएसवीजी रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053385	C49377468
77	सुदिक्षा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC046049	C49511868
78	गेम्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2008PTC036184	C49529001
79	अचीवर्स एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC048229	C49656960
80	टेक्लीग कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC055214	C49844699

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
81	एग्रीया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2012PTC050586	C49993611
82	वेंकटेश्वर एग्री इंडस्ट्रीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U15133UP2000PTC025526	C50007285
83	सेफप्रोग्रेस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2013PTC058389	C50034503
84	एसपिज सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC027777	C50202852
85	रिजवी आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U70109UP2011PTC044579	C50391176
86	ग्लोबल क्रिएशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046809	C50431733
87	आबराड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2014PTC061748	C50477942
88	पदम पोलीपैक प्राइवेट लिमिटेड	U25209UP1986PTC008362	C50501378
89	क्रष्णा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U17111UP1988PTC009951	C50554278
90	शिवा फ्रेश फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048819	C50583376
91	बेसलाइन कान्ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC052802	C50718287
92	गाजीपुर रोलिंग मिल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U28113UP2007PTC032772	C50753250
93	पोलेक्स प्रोसेस आटोमेशन एण्ड कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2010PTC041746	C50818616
94	ओम पालीक्लीनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC041127	C50839612
95	मैक लियोगंज टी हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U15431UP2009PTC038911	C50847193
96	आध्या इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC047644	C50869957
97	जमालुद्दीन खान इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29191UP2000PTC025077	C51058493
98	राजदीप कान्ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2009PTC037576	C51060093
99	एलआर इफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049502	C51073864

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208202, दिनांक 8 जून 2015

सं.: 560(5)/उ.ख./101—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन संख्या
1.	हमारा परिवार डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UR2004PTC028489	C43477959

2.	रेड ईगल सिक्थोरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74920UR2004PTC028259	C49357007
3	कारवॉ ट्रैडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U52100UR2011PTC033614	C43814987
4.	विजन ट्रैडकाम प्राइवेट लिमिटेड	U52100UR2011PTC033610	C44168557
5.	सोबर ट्रैडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UR2011PTC033649	C44091049
6.	शौर्य कामर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	U52100UR2011PTC033616	C45004876
7	मेबिलाइज नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2009PTC032923	C45754595
8	जीवनज्योति स्टूडेंट्स वेलफेयर प्राइवेट लिमिटेड	U80301UR2009PTC032930	C45091758
9	उत्तराखंड हेल्थकेयर प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U85110UR2006PTC032016	C42956524
10	ए0पी0एम0 रिसर्च एंड एनालाइटिकल लेब्स प्राइवेट लिमिटेड	U73100UR2010PTC033111	C44974194
11	राजश्री मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403UR2011PTC033678	C43293927
12	साईदपुरा इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U67120UR2006PTC032170	C42714519
13	टैरेस कल्टीवेशन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U01111UR2006PTC031350	C35155654
14	आई0डी0ई0बी0 पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U40108UR2008PTC032670	C43903871
15	शमक ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36911UR2003PTC027321	C47868427
16	विंगस एज्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड	U80301UR2008PTC032541	C48091771
17	नीलकंठ एरोमेटिक ऑयलस प्राइवेट लिमिटेड	U01117UR2005PTC030996	C44597383
18	आर0 जे0 कोलोनाइजर्स लिमिटेड	U70101UR2005PLC031172	C44596096
19	रेड ईगल सिक्थोरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74920UR2004PTC028259	C49357007
20	योग गंगा प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U45201UR2006PTC031744	C49052756
21	ए0पी0एम0 रिसर्च एंड एनालिटिकल लैब्स प्रा0लि0	U73100UR2010PTC033111	C44974194
22	यू0पी0हिल कम्प्यूटर्स प्रा0लि0	U72100UR1993PTC015936	C48910699
23	यूनिट्री कंसलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0	U74900UR2010PTC033145	C49458714
24	वी 0 के0 फ्लोरा एंड एनीमल्स रिसोर्सेज मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0	U01400UR2011PTC033455	C48575518

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं
शासकीय समापक
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और 60 कम्पनियों के संबंध में ।

जयपुर—302001, दिनांक 12 जून 2015

क्रमांक—आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/110—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टार से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियों विघटित कर दी गई हैं ।

क्र.स.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	2	3
01	030092	श्री फार्मारिटेल् प्राईवेट लिमिटेड
02	042691	सिसोफनी सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
03	032382	गणपति इन्फ्रावेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
04	042416	शिव शंकर स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
05	024805	राधाकृष्ण लैण्डदेव प्राईवेट लिमिटेड
06	024682	श्री कृष्णागोविन्द कृपा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
07	044382	कृष्ण बिल्डफार्म प्राईवेट लिमिटेड
08	026290	एमजेएस डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
09	043274	लश्करी इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
10	022584	लाईफलॉग बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
11	041610	शेरोवाली फार्म प्राईवेट लिमिटेड
12	008963	सिल्वरलाईन कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
13	017000	एम.के. पटाका ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
14	039180	इनोवेज ई—सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
15	013018	रामकृष्णशारदा इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
16	022996	सिक्सस्टार बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
17	038999	जगनाथ सूटिंग प्राईवेट लिमिटेड
18	021228	त्रिस्टार अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19	039039	श्री विनायका गारटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
20	042862	ग्रोथ हर्बस मेन्जमेन्ट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
21	035142	कारखाना एजुटेक प्राईवेट लिमिटेड
22	037292	थार वोयाग्स प्राईवेट लिमिटेड
23	034749	भव्य वूडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
24	025562	कुसुम बन्देज साडिज प्राईवेट लिमिटेड
25	044752	प्राइमनेट डाटा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
26	027175	दृशिका रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
27	032251	ग्रविटा एनर्जी लिमिटेड
28	040794	केविन सिनेवेव टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
29	031885	ग्रविटा इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
30	039346	टेकफोक्स सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
31	041591	अजयभारत मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड
32	037235	लूम्बा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
33	043807	जयपुर महल इकोमर्स प्राईवेट लिमिटेड
34	037037	कुचामन होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35	013583	इण्डो अमेरिकन इन्टरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड
36	032978	कपिला बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
37	010229	श्री वरजंगना लिजिंग एण्ड फाईनेंसिंग प्राईवेट लिमिटेड
38	028771	ग्रीन हैरिटेज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
39	005062	राइसिंग सन इंजिनियर्स लिमिटेड
40	034120	नन्दन बिल्डक्रियशन्स प्राईवेट लिमिटेड
41	012029	क्राउन कॉलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
42	012269	जयपुर फाउण्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
43	026785	ओम गणेश कन्सलटेन्ट एण्ड मार्केटिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
44	043047	इलेगन्ट टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड
45	043855	बालाजी मेगाबिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
46	015708	कृष्णादत्त मेमोरियल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
47	042010	कपूर बिल्डस्क्वायर प्राईवेट लिमिटेड
48	040970	संसार इवेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
49	028710	अशोका एडकॉम प्राईवेट लिमिटेड
50	039045	आस्थाविनायक टेक्सफेब प्राईवेट लिमिटेड
51	032367	टाइटलिस ग्रीन एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
52	034068	सिल्वर न्यू ऐरा ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
53	013292	पिंकलाईन ग्लासेज प्राईवेट लिमिटेड
54	033831	पिंकसिटी मोबाईल रिचार्ज नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
55	028671	रिचमैन ट्रेडमार्ट (इण्डिया) लिमिटेड
56	037856	रुकमणी बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
57	036470	गीतांश राज बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
58	042401	रगवी फार्म्स एण्ड एग्री डवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
59	028140	ओम गणेश ब्रिडिंग एण्ड पशुपालन केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड
60	037084	पैराडाईज बिल्डएस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दिकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

एलएलपी नियम, 2009 नियम 37 (3) के तहत नोटिस

बेंगलूरु—560034, दिनांक

2015

सं. आर.ओ.सी.बी./एलएलपी/बंद हड़ताली (केटी)/2014,—नोटिस एतद्वारा एलएलपी नियम, 2009 नियम 37 (3) के अनुसार दिया जाता है, निम्नलिखित एलएलपी के नाम (जो आवेदन फार्म—24 में एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत रजिस्ट्रार को नाम के हड़ताली के लिए किया जाता है) एलएलपी रजिस्टर से काटा गया है और इस एलएलपी, सरकारी राजपत्र में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख, 27 मई, 2015 से प्रभावी भंग कर रहे हैं :—

क्रं. सं. एलएलपी संख्या एलएलपी नाम

01. AAA-0232 कॉन्टरपार्ट कन्सल्टेन्ट्स (इण्डिया) एलएलपी

कीर्ति तेज, एन.
सहायक कम्पनी पंजीयक
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोयम्बतूर—641005, दिनांक 12 जून 2015.

सं. आर.ओ.सी. /सी.बीई/560(5)/एफटीई/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की यहां निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीस के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनीयां विघाटित हो गई हैं :—

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U45302TZ1992PTC003850	श्री रामकृष्णा है-टेक लिमिटेड
2	U51909TZ2006PTC012456	ऐफिल एक्स्पॉर्ट्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
3	U74910TZ2006PTC013169	आर्टिमिस हचआर सर्वीस कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड
4	U17111TZ2006PTC013191	श्री गुरु टेक्स्टैल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U72200TZ2007PTC013770	श्री सुदर्शन ऐ-टेक सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U63033TZ2007PTC013941	राम्नाड एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
7	U29200TZ2007FTC014089	सैंडर मेटल प्राइवेट लिमिटेड
8	U17111TZ2008PTC014142	प्रिमियर फैन यानर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U21012TZ2009PTC015097	सीमा पेप्पर बोर्ड लिमिटेड
10	U50102TZ2009PTC015380	कोवै कार ब्रफ्ट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
11	U52341TZ2009PTC015641	चाया एजेन्सीस (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
12	U40108TZ2011PTC016661	देय्वम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
13	U74999TZ2011PTC016850	एन आर सेन्टर फार इन्डस्ट्रियल अन्ड टेक्निकल आडिट प्राइवेट लिमिटेड

14	U40108TZ2011PTC017033	आर सी सी एनर्जी अन्ड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
15	U51420TZ2011PTC017375	अमाल्गमेट्टड अलाय्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U29253TZ2011PTC017582	कोवै माग्नम वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U72200TZ2011PTC018109	आरा ऐटी कन्सल्टन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
18	U72200TZ2012PTC018309	इन्वाट्रेक सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U93000TZ2012FTC018784	अप्रोप्रियेट ऐटी केरियर डेवलप्मेन्ट अकडमी प्राइवेट लिमिटेड
20	U15543TZ2013PTC019205	नकोडा अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
21	U72400TZ2013PTC019893	पिहच4ग्लोबल सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड

ना. रामनाथन
कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 4th June 2015

No. F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint the following officials to the post and with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name & Designation	Post to which promoted & Date
1.	Ms. Soma Ghosh, Senior Court Assistant (Senior Translator) (Ex-cadre)	Branch Officer (Translation) (Ex-cadre) w.e.f. 25.05.2015(F/N)
2.	Sh. Rajesh Prasad, Senior Court Assistant (Ex-cadre)	Assistant Director (Ex-cadre), Supreme Court Museum w.e.f. 3.6.2015 (A/N)

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 9th June 2015

No. O.II.7433/2015-Pers.DA.4—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government service by the competent authority, Shri Nempal Singh, Deputy Commandant (IRLA-7433) of Northern Sector HQ, RK Puram, New Delhi has relinquished his post on 01/06/2015(AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01/06/2015(AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers) Dte

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

New Delhi-110 003, the 12th June 2015

No. A-4/09/2015—Director of Enforcement hereby appoints the following Inspectors of Central Excise and Customs/Income-Tax/Police Officials as Enforcement Officers on deputation basis in the Pay Band-2 Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- for a period of three years w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer S/Sh.	Date of joining
1.	Rakesh Kumar Santosh	25.08.2014
2.	Somnath Chowdhary	30.09.2014
3.	Smt. Urmi Mukherjee	17.09.2014
4.	Rattan Lal Thakur	20.10.2014
5.	Jayan Dominic	04.12.2014
6.	Arun K. Kuppannagari	16.01.2015
7.	Vinodan K.	19.01.2015
8.	Vinod M.P.	12.02.2015
9.	Arun Kumar	16.03.2015
10.	Smt. Akanksha Avasthi	06.04.2015
11.	S. Vidya Sagar	11.05.2015
12.	Azad Ahmad Dar	18.05.2015
13.	Mrs. Gurpreet Kaur Saini	18.05.2015
14.	Raj Kumar	19.05.2015

SATYENDRA MATHURIA, IRS
Joint Director (Admn.)

A-4/09/2015—Director of Enforcement hereby appoints Sh. Sita Ram Meena, Assistant Police Commissioner of DANICS as Assistant Director on deputation basis in the Pay Band-2 Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- for a period of three years w.e.f. 12.09.2014 or until further orders.

SATYENDRA MATHURIA, IRS
Joint Director (Admn.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA

Bhubaneswar-1, the 5th June 2015

No. E.O. No. 14—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office OOC No.151 dated 01.06.2015, the Accountant General has been pleased to allow Sri Radha Damodar Mohanty, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300-34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the date of taking over charge i.e. on 01/06/2015 (FN) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High court/CAT, if any. Other terms and conditions of OOC No.151 dated. 01.06.2015 shall remain unchanged.

R. RADHAKRISHNAN
Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th June 2015

Sl.No.	Name	Designation	Date of retirement
1	Sri. Shunmugham T K	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2015AN (Superannuation)
2	Smt. Seetha S	Assistant Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2015AN (Superannuation)

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 5th June 2015

No.A-19011/ 266/2015-Estt.A—On the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, Shri Ranjan Kumar Sinha, Controller of Mines is promoted to the post of Chief Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Nagpur, in the forenoon of 05.06.2015.

N. DAHANGA
Administrative Officer
For Controller General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai - 400 001, the 5th June 2015

No. 26/1/2015-CCS/7421—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Senior Accounts Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 5,400/-) to the grade of Deputy Controller of Accounts (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/-), in the units of the Department of Atomic Energy w.e.f. the dates given alongside until further orders:—

Sl. No.	Name	Unit	Date of promotion to the grade of Deputy Controller of Accounts
1.	Shri Lakshman Hoonu Pawar	AERB, Mumbai	16.03.2015
2.	Shri Girish Chandra	HWP, Kota	17.04.2015

A.SUKUMARAN
Under Secretary

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad - 500 062, the 6th June 2015

No. NFC/PAR.II/Prom.14/2015/1042— The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades and with effect from the dates shown against each in the same unit, in an officiating capacity, until further orders:—

S.No.	Name (S/Shri/Smt)	Promotion		Date of Promotion
		From Grade	To Grade	
Pay Band / Grade Pay of SO/E : Rs.15600-39100 / 7600				
1.	T LAKSHMI REDDY	SO/D	SO/E	1.7.2014
2.	J V RAMANA MURTHY	SO/D	SO/E	1.7.2014
3.	K PRABHAKAR	SO/D	SO/E	1.7.2014
4.	R S AMBHORKAR	SO/D	SO/E	1.7.2014
5.	V RAVINDER REDDY	SO/D	SO/E	1.7.2014
6.	V DINAKAR	SO/D	SO/E	1.7.2014
7.	T TANMAYA SRICHANDAN	SO/D	SO/E	1.7.2014
8.	VASANTHA RAMA MURTHY	SO/D	SO/E	1.7.2014
9.	K LAKSHMI	SO/D	SO/E	1.7.2014
10.	SUMAN KUMAR	SO/D	SO/E	1.7.2014
11.	G MALLIKARJUNA	SO/D	SO/E	1.7.2014
12.	SUBHAPRADA PAVANI	SO/D	SO/E	1.7.2014
13.	R N PATHAK	SO/D	SO/E	1.7.2014
14.	ROSHAN SINGH CHOUHAN	SO/D	SO/E	1.7.2014
15.	A HARI BABU	SO/D	SO/E	1.7.2014
16.	B V RAMANA MURTHY	SO/D	SO/E	1.7.2014
17.	A VENKATA RAJA	SO/D	SO/E	1.7.2014
18.	P RANGANATH PRASAD	SO/D	SO/E	1.7.2014
19.	SUSHANTH NIGAM	SO/D	SO/E	1.7.2014
20.	C KARUPPASAMY	SO/D	SO/E	1.7.2014
21.	Dr. SHALABH SAXENA	SO/D	SO/E	1.7.2014
Pay Band / Grade Pay of SO/D : Rs. 15600-39100 / 6600				
1.	P PAVAN KUMAR	SO/C	SO/D	1.7.2014
2.	GAJENDRA MEWARA	SO/C	SO/D	1.7.2014
3.	SHIBASHANKAR DAS	SO/C	SO/D	1.7.2014
4.	K SHIREESHA	SO/C	SO/D	1.7.2014
5.	BIPATTARAN HALDAR	SO/C	SO/D	1.7.2014
6.	M ANIL KUMAR REDDY	SO/C	SO/D	1.7.2014
7.	MANJU MURALI	SO/C	SO/D	1.7.2014
8.	N VIJAY KUMAR	SO/C	SO/D	1.7.2014
9.	A V KRISHNA	SO/C	SO/D	1.7.2014
10.	G UGENDER	SO/C	SO/D	1.7.2014
11.	ROHITASHAVA SHARMA	SO/C	SO/D	1.7.2014

S.No.	Name (S/Shri/Smt)	Promotion		Date of Promotion
		From Grade	To Grade	
12.	RAMAN KUMAR	SO/C	SO/D	2.7.2014
13.	V RAVEENDRA BABU	SO/C	SO/D	6.7.2014
14.	M VIJAYA LAKSHMI	SO/C	SO/D	1.7.2014
Pay Band / Grade Pay of SO/C : Rs. 15600-39100 / 5400				
1.	K DEVENDAR	SO/SB	SO/C	5.7.2014
Pay Band / Grade Pay of TO/C : Rs. 15600-39100 / 5400				
1.	Y BHEEMASANKAR	TO/B	TO/C	1.7.2014

A. JAYA KRISHNA
Administrative Officer-III

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 8th June 2015

No. PD/7(7)/2015-R-IV/SO(D)/ETG/15/6075—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Thattathuvalappil Vasudevan, Station Officer/B Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Station Officer/C in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2014, in an officiating capacity until further orders.

M V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(7)/2015-R-IV/SO(D)/ETG/15/6075—The President is pleased to appoint the undermentioned Technical Officers grade 'C' Pay Band of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade D in the Pay Band of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2014 in an officiating capacity until further orders:—

Sl.No	Name of the officer
(1)	(2)
1	Shri SAROJ KUMAR YADAV
2	Shri BISWANATH ROY CHOWDHURY
3	Shri MANAS RANJAN SENAPATI
4	Shri ANIL KUMAR
5	Shri CHANDRAJEET YADAV
6	Shri ASHOK KUMAR
7	Dr Smt NIVEDITA P KHAIRNAR
8	Smt JILJU RATHEESH
9	Shri SANTOSHKUMAR GANGARAM SAWANT
10	Shri AMIT KUMAR VERMA
11	Shri LALIT MOHAN
12	Smt ANJALI PRABHU
13	Shri RAMJIT YADAV

M V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(7)/2015-R-IV/SO(D)/ETG/15/6075—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Gade Pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Gade Pay Rs. 6,600/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders:—

Sl.No	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
1	Shri ASHOK KUMAR YADAV	01/07/2014
2	Kum CHANDRANI NAYAK	01/07/2014
3	Shri VIPIN KUMAR SHARMA	01/07/2014
4	Shri MADHUSUDAN GHOSH	01/07/2014
5	Shri RAJEEV KUMAR JHA	01/07/2014
6	Shri SANJAY CHANDRA ANDOLA	01/07/2014
7	Shri LOVE MISHRA	01/07/2014
8	Shri BITAN GHOSAL	01/07/2014
9	Shri DILEEP KUMAR NEHRU	01/07/2014
10	Shri HARSH HEMANI	01/07/2014
11	Shri RAVI K. GUPTA	01/07/2014
12	Shri MANOJ KUMAR MISHRA	01/07/2014
13	Shri RUPESH KUMAR SINGH	01/07/2014
14	Shri ABHISHEK KUMAR	01/07/2014
15	Shri SELVAM ANAND	01/07/2014
16	Smt ANUSHA THATI	01/07/2014
17	Smt BAHULKAR PRATIBHA SHARAD	01/07/2014
18	Kum GARIMA PANDEY	01/07/2014
19	Shri VIPIN KUMAR KABRA	01/07/2014
20	Shri NAWAJ DASTAGIR SHIKALGAR	01/07/2014
21	Kum REMYA HARIDASAN	01/07/2014
22	Shri NAVEEN KUMAR	01/07/2014
23	Kum BITAN GHOSH	21/07/2014
24	Shri NITESH GOSWAMI	01/07/2014
25	Shri JAGADISH KOTA	01/07/2014
26	Dr. BASANTA KUMAR DAS	01/07/2014
27	Shri AMIT KUMAR	01/07/2014
28	Smt. SANDHYA MOHANAN	01/07/2014
29	Shri SHIB SHANKAR SIKDER	01/07/2014
30	Shri KAUSHIK SANYAL	01/07/2014
31	Shri CHAYAN BANERJEE	01/07/2014
32	Shri DEEPAK CHANDRA	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
33	Shri DILEEP CHETTIAMPARAMBIL SANKARAN	01/07/2014
34	Smt MANISHA RAVINDRA LOKHANDE	07/07/2014
35	Shri NERAJ GUPTA	01/07/2014
36	Shri NAVAMANI MALLIKARJUNAN	01/07/2014
37	Shri ARJUN SARKAR	01/07/2014
38	Kum RICHA SHUKLA	01/07/2014
39	Shri SUDIP KUMAR SARKAR	01/07/2014
40	Shri NARENDRA KUMAR SETHY	01/07/2014
41	Shri ANEESH PANDARA PURAYIL	01/07/2014
42	Shri SACHIN KAMATH	01/07/2014
43	Smt AKANKSHA JAIN	01/07/2014
44	Shri KULATHINTAKIZHAKKATHIL VISWANATHAN VIMALNATH NAIR	01/07/2014
45	Smt SUREKHA UDAY SANE	01/07/2014
46	Shri AMVEE ROYCHOWDHURY	01/07/2014
47	Smt. M. KOTHAI NACHIYAR	01/07/2014
48	Shri MISHRA NALINI RANJAN	01/07/2014
49	Shri SIVAKUMAR K S	01/07/2014
50	Smt. N. SRIDEVI	01/07/2014
51	Shri AMIS SHANKAR	01/07/2014
52	Shri BINOD KUMAR SINGH	01/07/2014
53	Shri PRAJEESH KUMAR NADUMURI CHANDRAN	01/07/2014
54	Shri ABDUL WAHID	01/07/2014
55	Shri AMIT KHATTAR	01/07/2014
56	Kum ARUNDHATI BUTE	01/07/2014
57	Shri DEEPAK NAPHADE	01/07/2014
58	Shri SUBHANKAR BHANDARI	01/07/2014
59	Shri TATSAT DWIVEDI	01/07/2014
60	Shri ALOK PRAKASH	01/07/2014
61	Shri ARVIND KUMAR	01/07/2014
62	Shri DHIMAN CHAKRAVARTY	01/07/2014
63	Shri TEJINDER PAL SABHARWAL	01/07/2014
64	Dr KATTIMANI ASHOK	01/07/2014
65	Smt ANAGHA AJAY MULIK	01/07/2014
66	Dr SAMENDER YADAV	01/07/2014
67	Kum DIVYA KOHLI	01/07/2014
68	Shri SIVAKUMAR ULAGANATHAN	01/07/2014
69	Shri NAISHEEL VERDHAN	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
70	Shri RAJAK SYED	01/07/2014
71	Kum RUMU HALDER	01/07/2014
72	Kum POONAM A. HANDE	01/07/2014
73	Shri ABHINAV KUMAR	01/07/2014
74	Shri ASIM PAL	01/07/2014
75	Shri GHANSHYAM KUMAR PRAJAPATI	01/07/2014
76	Shri DEEPAK RAWAT	01/07/2014
77	Shri GINISHKUMAR PURUSHAN	01/07/2014
78	Shri SATYENDRA PRASAD ROY	01/07/2014
79	Shri TAPAN KUMAR SAWARN	01/07/2014
80	Smt POONAM PRAKASH JAGASIA	01/07/2014
81	Shri ASHWANI KUMAR	07/07/2014
82	Smt DIPTI JAYESH SHAH	01/07/2014
83	Smt VAIBHAVI VISHWAJEET RAUT	01/07/2014
84	Shri NIMAI PATHAK	01/07/2014
85	Shri PARVEEN KUMAR VERMA	01/07/2014
86	Shri SABYASACHI PATRA	01/07/2014
87	Shri ABHIMANYU CHOWDHURY	01/07/2014
88	Shri CH SANTOSH SUBUDHI	01/07/2014
89	Shri PRATEEK SAXENA	01/07/2014
90	Shri PUNNA RAJASEKHAR	01/07/2014
91	Shri AVINASH MOHARANA	01/07/2014
92	Shri PRADEEP PANDEY	01/07/2014
93	Smt CHANDRAKALA SANJAY GHOLVE	01/07/2014
94	Shri DEVAVRAT TRIPATHI	01/07/2014
95	Shri KOUSHIK BHANDARI	01/07/2014
96	Shri BALRAM SINGH	01/07/2014
97	Shri MALAY GHOSH	01/07/2014
98	Shri RAKESH AMBIKA RAMACHANDRAN	01/07/2014
99	Dr Smt SANGEETHA N.	01/07/2014
100	Shri ANCHAL BAKIWALA	01/07/2014
101	Shri RAJESH KUMAR CHAURASIA	01/07/2014
102	Shri TARUN KUMAR AGARWAL	01/07/2014
103	Shri BISWAJIT MANNA	01/07/2014
104	Shri CHANDRA PRAKASH KEWAT	01/07/2014
105	Shri PRAVEEN KUMAR	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
106	Shri ASHISH KUMAR SRIVASTAVA	01/07/2014
107	Smt V KUSUM VATS	01/07/2014
108	Shri AMITANSHU MISHRA	01/07/2014
111	Shri SRIJIT BANDYOPADHYAY	01/07/2014
112	Shri AMAR DUTT PANT	01/07/2014
113	Shri PRATIP MITRA	01/07/2014
114	Smt PRIYANKA JAGDISH REDDY	01/07/2014
115	Shri MOHAMAD ALTAF	01/07/2014
116	Shri SAGAR CHANDRA	01/07/2014
117	Shri RAJ KUMAR MONDAL	01/07/2014
118	Shri AJITH BALAN	01/07/2014
119	Shri ANIL KUMAR	01/07/2014
120	Shri SANDEEP KUMAR SINGH	01/07/2014
121	Shri SHENDGE SHIVAJI RAMDAS	01/07/2014
122	Shri KUMAR AWINASH	07/07/2014
123	Shri HANI JAIN	01/07/2014
124	Shri MADA CHAITANYA KUMAR	01/07/2014
125	Shri MAHENDRA KUMAR	01/07/2014
126	SHRI RAJ KUMAR SAH	01/07/2014
127	Shri SASIKUMAR DAMODARAN	01/07/2014
128	Smt HELEN JEYARAJ	01/07/2014
129	Shri SANKARARAO NEERUKONDA	01/07/2014
130	Shri SINU CHANDRAN	01/07/2014

M V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(6)/2015-R-IV/SO(E)/ETG/15/6102—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers/Engineers Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 4 against each, in an officiating capacity until further orders:—

Sl.No	Name of the officer	Present Grade	Date of promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri SHEO MUKUND	SO D	01/07/2014
2	Smt KINCHIT SAXENA	SO D	01/07/2014
3	Shri RAJESH KUMAR MENIA	SO D	01/07/2014
4	Shri SUHAS SHASHIKANT KUMBHARE	SO D	01/07/2014
5	Shri AMIT KULSHRESHTHA	SO D	01/07/2014

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Shri JAYAPRAKASH DEVADAS	SO D	01/07/2014
7	Shri RAMCHANDRA BHIMRAO CHAVAN	SO D	01/07/2014
8	Shri PRAVAT KUMAR SWAIN	SO D	01/07/2014
9	Shri PANUGANTI VENKATA SUBRAHMANYA ADITYA	SO D	01/07/2014
10	Shri MRITYUNJAY TYAGI	SO D	01/07/2014
11	Smt SUCHETA CHATTERJEE	SO D	01/07/2014
12	Kum RAMNIK SINGH	SO D	01/07/2014
13	Smt MANJUSHA MUKESH MAHASHABDE	SO D	01/07/2014
14	Shri PISE PRAVIN VILAS	SO D	01/07/2014
15	Shri VIRENDRA KUMAR SAHU	SO D	01/07/2014
16	Shri SAM PHILIP JOHN	SO D	01/07/2014
17	Shri LALAM CHITTI NAIDU	SO D	01/07/2014
18	Dr KANHU CHARAN BARICK	SO D	01/07/2014
19	Shri CHANDORKAR NIRBHAY	SO D	01/07/2014
20	Shri INDER JEET SINGH	SO D	01/07/2014
21	Smt URVASHI KARNANI GAUR	SO D	01/07/2014
22	Shri ANJI REDDY D	SO D	01/07/2014
23	Shri HUNAID ZOHAI FANI	SO D	01/07/2014
24	Shri ANSUL KUMAR	SO D	01/07/2014
25	Shri VIKAS TEOTIA	SO D	01/07/2014
26	Shri SANDEEP NAIR R.	SO D	01/07/2014
27	Shri TEJAS RAMAKANT RANE	SO D	01/07/2014
28	Shri ASHOK KUMAR RANADE	SO D	01/07/2014
29	Shri GURPARTAP SINGH	SO D	01/07/2014
30	Smt NAMITA SINGH	SO D	01/07/2014
31	Smt RASHMITA DAS	SO D	01/07/2014
32	Shri SAURABH KUMAR NEEMA	SO D	01/07/2014
33	Smt SHIKHA SRIVASTAVA	SO D	01/07/2014
34	Shri SOURAV MUKHOPADHYAY	SO D	01/07/2014
35	Shri ANSHUMAN DEVIDAS WADNERKAR	SO D	01/07/2014
36	Shri PRASANNA KUMAR TRIPATHY	SO D	01/07/2014
37	Shri DONAL MARSHAL NORONHA	SO D	01/07/2014
38	Smt SUMANA PAUL	SO D	01/07/2014
39	Smt MARY GOPALKRISHNAN	SO D	01/07/2014

(1)	(2)	(3)	(4)
40	Dr PRASHANT WAMAN NAIK	SO D	01/07/2014
41	Shri SAMBHAJI DODHA CHAUDHARI	SO D	01/07/2014
42	Shri SUMIT GUPTA	SO D	01/07/2014
43	Smt SURBHI WADHAWAN	SO D	01/07/2014
44	Shri NISHANT N. PATEL	SO D	01/07/2014
45	Shri BRIJ KUMAR	SO D	01/07/2014
46	Shri MANISH KUMAR MISHRA	SO D	01/07/2014
47	Smt SUGANDHI SURESH	SO D	01/07/2014
48	Dr SUNIL C.	SO D	01/07/2014
49	Smt VITISHA SUMAN DAGRE	SO D	01/07/2014
50	Shri BINDUMADHAVAN SURESH	SO D	01/07/2014
51	Shri SOMANAN LIAQUAT ALIKHAN ASANALI	SO D	01/07/2014
52	Shri VENKATESH SANTHANAKRISHNAN	SO D	01/07/2014
53	Shri VENKATRAMAN SUBBARAMAN	SO D	01/07/2014
54	Shri SUSHEEL KUMAR TEBREWALA	SO D	01/07/2014
55	Smt K.R. SREEDEVI	SO D	01/07/2014
56	Shri RAMKUMAR SWAMINATHAN	SO D	01/07/2014
57	Shri SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA	SO D	01/07/2014
58	Dr Smt VRUNDA SUNIL YALMALI	SO D	07/07/2014
59	Smt SONAL SHARMA	SO D	01/07/2014
60	Shri L MARIA ANTONY	SO D	01/07/2014
61	Shri CHANDAN KUMAR	SO D	01/07/2014
62	Shri A J A DHAS	SO D	01/07/2014
63	Shri K SRINIVASA RAO	SO D	01/07/2014
64	Shri S MUKUNDAN	SO D	01/07/2014
65	Shri PAWAN KUMAR SINGH	SO D	01/07/2014
66	Shri BHEEMANAPALLI RAJAKUMAR	SO D	01/07/2014
67	Shri GAJADA SRINIVAS	SO D	01/07/2014
68	Shri SHARAD KUMAR SRIVASTAVA	SO D	01/07/2014
69	Shri KALYAN KUMAR NANDY	SO D	01/07/2014
70	Shri SABAVAT KISHAN	SO D	01/07/2014
71	Dr. SELVAKUMAR JAYAPRAKASAM	SO D	01/07/2014
72	Shri NITESH SHARMA	SO D	01/07/2014
73	Shri ANNAIKUTTY THAMILARASAN	SO D	01/07/2014
74	Shri VELMURUGAN PALANISAMY	SO D	01/07/2014
75	Shri RAJIB KAR	SO D	01/07/2014
76	Shri JALINDAR KUNDLIK DHONDKAR	SO D	01/07/2014
77	Shri AMAN KUMAR UJAONEY	SO D	01/07/2014

(1)	(2)	(3)	(4)
78	Shri SHYAM SUNDER RANGU	SO D	01/07/2014
79	Dr Smt ADITI PRASAD CHAUDHARI	SO D	01/07/2014
80	Dr Smt M. SUGANTHI	SO D	01/07/2014
81	Dr Smt SAYALI SWANAND BHEDASGAONKAR	SO D	01/07/2014
82	Shri RUPESH KUMAR CHOUDHARY	SO D	01/07/2014
83	Smt ARCHANA N. RAI	SO D	01/07/2014
84	Shri LAXMAN SINGH DANU	SO D	01/07/2014
85	Dr PAWAN KUMAR NETRAKANTI	SO D	01/07/2014
86	Shri RAMAN SEHGAL	SO D	10/07/2014
87	Shri SANAT KUMAR PANDIT	SO D	01/07/2014
88	Shri STANLY M.K.	SO D	01/07/2014
89	Shri PRADEEP SAMUI	SO D	01/07/2014
90	Shri BIRANCHI MUNI TRIPATHI	SO D	01/07/2014
91	Shri NAVNATH EKNATH MAWAL	SO D	01/07/2014
92	Shri PALASH KUMAR MOLLICK	SO D	01/07/2014
93	Shri M. PARIVALLAL	SO D	01/07/2014
94	Shri PRADEEP PANDIAN	SO D	01/07/2014
95	Dr NITIN MOTILAL GANDHI	SO D	01/07/2014
96	Shri ARIJIT SENGUPTA	SO D	01/07/2014
97	Smt SANHITA CHAUDHURY	SO D	01/07/2014
98	Shri DEBASHIS BANERJEE	SO D	01/07/2014
99	Shri ABHISHEK BORANA	SO D	01/07/2014
100	Shri ARINDAM KHAN	SO D	01/07/2014
101	Shri ASHUTOS MOHANTY	SO D	01/07/2014
102	Shri ASHUTOSH KABRA	SO D	01/07/2014
103	Shri DINESH KUMAR MAURYA	SO D	01/07/2014
104	Shri JITENDRA KUMAR PANDEY	SO D	01/07/2014
105	Shri KAPIL BODKHA	SO D	01/07/2014
106	Shri SUBAL CHANDRA HANRA	SO D	01/07/2014
107	Shri KARTIKEY KUMAR YADAV	SO D	01/07/2014
108	Smt KANCHAN KUSHWAHA	SO D	04/08/2014
109	Dr Smt UMA S. BHARTIYA	SO D	01/07/2014
110	Shri JITENDRA NATH DUBEY	SO D	01/07/2014
111	Shri SANTU KAITY	SO D	01/07/2014
112	Shri SOLAPURKAR MAHIPAT NARAYAN	SO D	01/07/2014
113	Shri ABHISHEK SINGH	SO D	01/07/2014
114	Dr. ASHOK M.	SO D	01/07/2014

(1)	(2)	(3)	(4)
115	Shri IMTIYAZ ALI SIDDIQUI	SO D	01/07/2014
116	Shri KANHAIYA SINGH	SO D	01/07/2014
117	Shri N. ALAGARSAMY	SO D	01/07/2014
118	Dr Smt R. TAMILARASI	SO D	01/07/2014
119	Dr. SANTOSH P. GHADGINE	SO D	01/07/2014
120	Shri VISHAL DILIPRAO DEKATE	SO D	01/07/2014
121	Shri ABHISHEK KUMAR SINGH	SO D	01/07/2014
122	Shri ANUJ SONI	SO D	01/07/2014
123	Shri RAMKRUSHNA SHESHMANI VISHWAKARMA	SO D	01/07/2014
124	Shri RAVINDER RAJARAM BHINGARE	SO D	01/07/2014
125	Shri SANDEEP DATTATRAYA KANSE	SO D	01/07/2014
126	Shri SUDESH MAHESH TRIPATHI	SO D	01/07/2014
127	Shri ANKUR SAHA	SO D	01/07/2014
128	Shri INDER KUMAR	SO D	01/07/2014
129	Shri ROHIT KUMAR	SO D	01/07/2014
130	Shri DEVENDRA KUMAR DWIVEDI	SO D	01/07/2014
131	Shri KAPIL DEO	SO D	01/07/2014
132	Shri ANIL PATHROSE	SO D	01/07/2014
133	Shri DEVENDRA SINGH SAINI	SO D	01/07/2014
134	Shri VILAS GOVIND SHELAR	SO D	01/07/2014
135	Shri JIGAR VIJAYKUMAR PATEL	SO D	01/07/2014
136	Shri MANOJ KUMAR TRIPATHY	SO D	01/07/2014
137	Shri P.Y. BHOSALE	TO D	01/07/2014
138	Shri PARITOSH PANDEY	SO D	01/07/2014
139	Shri GOKHALE ONKAR SURESH	SO D	01/07/2014
140	Shri RAJEEV KUMAR VERMA	SO D	01/07/2014
141	Shri RAMJIBHAI MAVJIBHAI PARMAR	SO D	01/07/2014
142	Shri DEEPAK KUMAR AKAR	SO D	01/07/2014
143	Shri JIS ROMAL JOSE	SO D	01/07/2014
144	Shri MANISH CHOPRA	SO D	01/07/2014
145	Shri SANJAY SINGH	SO D	01/07/2014
146	Dr T.S. SUDHEER	SO D	01/07/2014
147	Shri TANMOY DAS	SO D	01/07/2014
148	Shri SANTOSH PANDEY	SO D	01/07/2014

(1)	(2)	(3)	(4)
149	Smt JHIMLI PAUL GUIN	SO D	01/07/2014
150	Shri SHAIK ABDUL KHADER	SO D	11/07/2014
151	Shri ABIN CHERUVULLIL JOY	SO D	01/07/2014
152	Shri SUNIL SADASHIV KANSE	SO D	01/07/2014
153	Kum SWARNA TURLAPATY	SO D	01/07/2014
154	Shri MAYANAK KUMAR GUPTA	SO D	01/07/2014
155	Shri KULSHRESTHA SULENDRA BHUSHAN	SO D	01/07/2014
156	Shri LAD SHASHIKANT CHANDRAKANT	SO D	01/07/2014
157	Shri MISHRA SHAKTI KUMAR	SO D	01/07/2014
158	Dr MANORANJAN GHOSH	SO D	01/07/2014
159	Dr PURUSHOTTAM JHA	SO D	01/07/2014
160	Shri SANKESH RAM	SO D	01/07/2014
161	Shri BISWAJIT SWAIN	SO D	01/07/2014
162	Shri AMIYA RANJAN SAHOO	SO D	01/07/2014
163	Shri ASHOK KUMAR	SO D	18/07/2014
164	Shri MATHEW DOMINIC	SO D	01/07/2014
165	Shri GOVIND SINGH THAKUR	SO D	01/07/2014
166	Shri R. ANBAZHAGAN	SO D	01/07/2014
167	Shri ANAND KUMAR RAI	SO D	01/07/2014
168	Shri DEVESH KUMAR GUPTA	SO D	01/07/2014
169	Shri JAINENDRA NARAYAN	SO D	01/07/2014
170	Shri RAMJIT SHARMA	SO D	01/07/2014
171	Shri SUMAN LAL	SO D	01/07/2014
172	Shri GAURAV MISHRA	SO D	01/07/2014
173	Shri VIBHOR SHARMA	SO D	01/07/2014
174	Shri CHANDRAHAS SHIVANAND PAWASKAR	SO D	01/07/2014
175	Shri SHIRISH KESHAV POL	SO D	01/07/2014

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

O/o REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Kanpur-208002, the 4th June 2015

No. LC/560(5)/2244—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved:—

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
1	AAKASH GANGA MOTELS & RESORTS LIMITED	U55101UP2008PLC036465	C44924900
2	AAKASH GANGA BUILDTECH LIMITED	U45201UP2008PLC036470	C44925626
3	AAKASH GANGA ENTERTAINMENT LIMITED	U92490UP2008PLC036469	C44926566
4	FLORID PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U85110UP1995PTC018187	C45430881
5	DIVYA APR MEDISOLUTIONS PRIVATE LIMITED.	U52310UP2008PTC036262	C45713708
6	WHITE STAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC054460	C46727640
7	SNA CONSTRUCTIONS & PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC049660	C47316369
8	ORIZEST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2014PTC061904	C47334446
9	LUCKNOW RETAIL PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037185	C47404199
10	VARANASI RETAIL PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037184	C47411277
11	ARUN AND RAJAT TRADEMART PRIVATE LIMITED	U51101UP2010PTC040791	C47608450
12	S.K.S. INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U74999UP2008PTC035453	C47644810
13	UR CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC049027	C47757950
14	AHAAN BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED	U52100UP2009PTC036821	C47762679
15	FOCUS INFOMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PTC040797	C47921994
16	KRISHINIDHI HYBRID SEEDS PRIVATE LIMITED	U01403UP2013PTC057547	C47926860
17	GREEN LEAF INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062965	C47909494
18	B.N.N BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200UP2006PTC032583	C47948351
19	R G DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1984PTC006809	C47952239
20	SHREE KRISHAN SHARMA TRAVELS AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65921UP1991PTC012858	C47969118
21	SOULS ANDSPIRITS INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66010UP2005PTC031086	C47977046
22	FACTUM INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC045744	C48004063
23	WELLDONE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033269	C48024046
24	WELLDONE INFRASTRUCTURE(LUCKNOW) PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC031176	C48024673
25	Redex Nano Labs Private Limited	U24233UP2013PTC059888	C48057723
26	UMAPATI AGRITECH PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC052983	C48100473
27	NEELKANTH AGRITECH PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC050464	C48100523
28	RAAJLAKSHMI INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055147	C48166086
29	TRIPATHI INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72200UP2000PTC025066	C48196455

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
30	NAVRATRA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP1988PTC010304	C48201677
31	GLOBAL FRIENDS FLOAT GLASS PRIVATE LIMITED	U26990UP2014PTC063992	C48202576
32	BURTON RUBBERS PRIVATE LIMITED	U25199UP1982PTC005825	C48226690
33	ABHIALOK online services private limited	U72300UP2011PTC043466	C48274773
34	LEGEND GREEN POWERS PRIVATE LIMITED	U11115UP1974PTC004024	C48351837
35	CLIFF MOBILES LIMITED	U72400UP2008PLC034458	C48354005
36	NAMYA HUMAN RESOURCE AND SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC040618	C48376230
37	MATTOX SECURITY PRIVATE LIMITED	U74992UP2010PTC041807	C48384382
38	AMRONEX HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048397	C48385017
39	Auraphon Health Informatics Private Limited	U74120UP2012PTC051960	C48388953
40	SERVIO STAFFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051305	C48446421
41	PHK Infotech Private Limited	U72300UP2013PTC059313	C48458475
42	SV ORNAMENTS & FINSECK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U51101UP2011PTC046453	C48426985
43	BETA FOOT WEAR PRIVATE LIMITED	U19201UP2006PTC031342	C48494207
44	NOVEL ERA INTERIO AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2008PTC035751	C48513956
45	PINAKEE INFOTECH AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2010PTC042704	C48515191
46	PROLUCK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053824	C48520183
47	Gungun Developers Private Limited	U70102UP2013PTC058913	C48530885
48	XPERT CONEXIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058865	C48552459
49	HIVEMIND OUTSOURCE SOLUTIONS LIMITED	U74991UP2007PLC033217	C48567887
50	HAIG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046229	C48576375
51	MANSI INSURANCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U66000UP2007PTC033980	C48642193
52	SAWARNA LIFESPACE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055651	C48692727
53	FerroPrime Trading Private Limited	U74120UP2013PTC054909	C48704506
54	CLEAN SoftTech PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC052276	C48720783
55	SANVI JEWELS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC043968	C48746549
56	BRIGHTIDEA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC043708	C48844948
57	YUVI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51220UP2006PTC031992	C48895304
58	MAXMIN HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U63090UP2013PTC056813	C48928287
59	GLOBALHELLO INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC059581	C48945075
60	SIDDHANT INFRAHOME PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062588	C48958359

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
61	IFAZONE COLLECTIONS PRIVATE LIMITED	U18204UP2011PTC047330	C48956437
62	SOB REAL ESTATE INDIA LIMITED	U70100UP2013PLC061233	C48971642
63	DEE AAR INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC044079	C48976989
64	METCOM COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U27310UP2005PTC030210	C49013691
65	AQUA FLOW INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U93000UP2014PTC062145	C49051501
66	KAIZEN ENERGY CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056111	C49063803
67	INNOVAZION eSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93030UP2010PTC039938	C49073364
68	BHADOHI PETROLEUM DEALERS PRIVATE LIMITED	U50200UP2014PTC063605	C49135783
69	CAREER CONSULTANCY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210UP2000PTC025402	C49144553
70	HUMAN CARE MEDICOS PRIVATE LIMITED	U24100UP2011PTC044561	C49147010
71	PRAKASH DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1988PTC010059	C49158405
72	KAMAL BIO-CHEM PRIVATE LIMITED	U24231UP1996PTC019294	C49185887
73	GOLDEN TEA & FOOD PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U15122UP2009PTC037566	C49185911
74	P K G BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC058523	C49301880
75	ARVACHEEN COMPUTER AND EDUCATION CENTER PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC044192	C49360944
76	S S V G REALESTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053385	C49377468
77	SUDIKSHA BIOTECH PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC046049	C49511868
78	GAMS INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900UP2008PTC036184	C49529001
79	ACHIEVERS EDUTECH PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC048229	C49656960
80	TECHLEEG CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC055214	C49844699
81	AGRIYA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24233UP2012PTC050586	C49993611
82	VENKATESHWAR AGRO INDUSTRIES AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U15133UP2000PTC025526	C50007285
83	SAFEPROGRESS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U85191UP2013PTC058389	C50034503
84	SPITZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC027777	C50202852
85	RIZVI ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U70109UP2011PTC044579	C50391176
86	GLOBAL CREATIONS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046809	C50431733
87	OBRAD INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45201UP2014PTC061748	C50477942
88	PADAM POLYPACK PRIVATE LIMITED	U25209UP1986PTC008362	C50501378
89	KRISHNA SPINNERS PRIVATE LIMITED	U17111UP1988PTC009951	C50554278
90	SHIVA FRESH FRUITS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048819	C50583376

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
91	BASELINE CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC052802	C50718287
92	GHAZIPUR ROLLING MILLS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U28113UP2007PTC032772	C50753250
93	POLLEX PROCESS AUTOMATION & CONTROLS PRIVATE LIMITED	U74992UP2010PTC041746	C50818616
94	OM POLYCLINICS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC041127	C50839612
95	Mc Leodganj Tea House Private Limited	U15431UP2009PTC038911	C50847193
96	AADHYA INTERIORS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC047644	C50869957
97	JAMALUDDIN KHAN ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29191UP2000PTC025077	C51058493
98	RAJDEEP CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45201UP2009PTC037576	C51060093
99	ALAR INFRATEL PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049502	C51073864

S.P.KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand.

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Kanpur-208002, the 8th June 2015

No. LC/560(5)/UK/101—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:—

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	HAMARA PARIVAR DEVELOPERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U45201UR2004PTC028489	C43477959
2	RED EAGLE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UR2004PTC028259	C49357007
3	CARVAN TRADEMART PRIVATE LIMITED	U52100UR2011PTC033614	C43814987
4	VISION TRADECOM PRIVATE LIMITED	U52100UR2011PTC033610	C44168557
5	SOBER TRADERS PRIVATE LIMITED	U52100UR2011PTC033649	C44091049
6	SHOURYA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED	U52100UR2011PTC033616	C45004876
7	MOBILIZE NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED	U93000UR2009PTC032923	C45754595
8	JEEVANJYOTI STUDENTS WELFARE PRIVATE LIMITED	U80301UR2009PTC032930	C45091758
9	UTTARAKHAND HEALTHCARE PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U85110UR2006PTC032016	C42956524
10	APM RESEARCH & ANALYTICAL LABS PRIVATE LIMITED	U73100UR2010PTC033111	C44974194
11	RAJSHREE MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U01403UR2011PTC033678	C43293927

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
12	SAIDPURA INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120UR2006PTC032170	C42714519
13	TERRACE CULTIVATION MARKERING SERVICES PRIVATE LIMITED	U01111UR2006PTC031350	C35155654
14	IDEB POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED	U40108UR2008PTC032670	C43903871
15	SHAMAK JEWELLERS PRIVATE LIMITED	U36911UR2003PTC027321	C47868427
16	WINGS EDUTECH PRIVATE LIMITED	U80301UR2008PTC032541	C48091771
17	NEELKANTH AEROMATIC OILS PRIVATE LIMITED	U01117UR2005PTC030996	C44597383
18	RJ COLONISERS LIMITED	U70101UR2005PLC031172	C44596096
19	RED EAGLE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UR2004PTC028259	C49357007
20	YOG GANGA PROJECTS (I) PRIVATE LIMITED	U45201UR2006PTC031744	C49052756
21	APM RESEARCH & ANALYTICAL LABS PRIVATE LIMITED	U73100UR2010PTC033111	C44974194
22	UPHILL COMPUTERS PRIVATE LIMITED	U72100UR1993PTC015936	C48910699
23	Unitree Consultancy Services Private Limited	U74900UR2010PTC033145	C49458714
24	VK Flora and Animal Resources Management Private Limited	U01400UR2011PTC033455	C48575518

S.P.KUMAR
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
U.P. & Uttarakhand.

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Jaipur-392001, the 12th June 2015

No.ROC /JPR/560(5)/ 111—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Company Name
1	030092	SHREE PHARMARETAIL PRIVATE LIMITED
2	042691	SYSOFTNI SOLUTION PRIVATE LIMITED
3	032382	GANPATI INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
4	042416	SHIV SHANKAR STONES PRIVATE LIMITED
5	024805	Radhakrishnan Landdev Private Limited
6	024682	SHREE KRISHNAGOVIND KRIPA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
7	044382	KRISHAN BUILDFARM PRIVATE LIMITED
8	026290	MJS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
9	043274	LASHKARI INFRABUILD PRIVATE LIMITED

10	022584	LIFELONG BUILDHOME PRIVATE LIMITED
11	041610	SHERAWALI FARMS PRIVATE LIMITED
12	008963	SILVERLINE COLONIZERS PRIVATE LIMITED
13	017000	M.K. PATHAKA TRADING PRIVATE LIMITED
14	039180	INNOWAYS E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
15	013018	RAMKRISHNASHARDA ENGINEERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
16	022996	SIXSTAR BUILDHOME PRIVATE LIMITED
17	038999	JAGNATH SUITING PRIVATE LIMITED
18	021228	TRISTAR APARTMENTS PRIVATE LIMITED
19	039039	SHRI VINAYAKA GARTEX PRIVATE LIMITED
20	042862	GROWTH HERBS MANAGEMENT AND MARKETING PRIVATE LIMITED
21	035142	KARKHAANA EDUTECH PRIVATE LIMITED
22	037292	THAR VOYAGES PRIVATE LIMITED
23	034749	Bhavya Woodmart Private Limited
24	025562	Kusum Bhandej Sarees Private Limited
25	044752	PRIMENET DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
26	027175	DARSHIKA RESORTS PRIVATE LIMITED
27	032251	GRAVITA ENERGY LIMITED
28	040794	KEVIN SINEWAVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
29	031885	GRAVITA INFRA PRIVATE LIMITED
30	039346	TEKFOX SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
31	041591	AJAYBHARAT MINCHEM PRIVATE LIMITED
32	037235	LOOMBA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
33	043807	JAIPUR MAHAL ECOMMERCE PRIVATE LIMITED
34	037037	KUCHAMAN HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
35	013583	INDO AMERICAN INTERNATIONAL HOSPITAL LIMITED
36	032978	KAPILA BUILDTECH PRIVATE LIMITED
37	010229	SHRI VARJANGANA LEASING AND FINANCING PRIVATE LIMITED
38	028771	GREEN HERITAGE MARKETING PRIVATE LIMITED
39	005062	RISING SUN ENGINEERS LIMITED
40	034120	NANDAN BUILDCREATIONS PRIVATE LIMITED
41	012029	CROWN COLONIZERS PVT LTD
42	012269	JAIPUR FOUNDATION PRIVATE LIMITED
43	026785	OM GANESHA CONSULTANT AND MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
44	043047	ELEGANT TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
45	043855	BALAJI MEGABUILDERS PRIVATE LIMITED
46	015708	KRISHNADUTT MEMORIAL HOSPITAL PRIVATE LIMITED
47	042010	Kapur Buildsquare Private Limited
48	040970	SANSAR EVENTS PRIVATE LIMITED
49	028710	ASHOKA ADCOM PRIVATE LIMITED
50	039045	ASTHAVINAYAK TEXTFAB PRIVATE LIMITED

51	032367	TITLIS GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
52	034068	SILVER NEW ERA JEWELLERY PRIVATE LIMITED
53	013292	PINKLINE GLASSES PRIVATE LIMITED
54	033831	PINKCITY MOBILE RECHARGE NETWORK PRIVATE LIMITED
55	028671	RICHMAN TRADEMART (INDIA) LIMITED
56	037856	RUKMANI BUILDCON PRIVATE LIMITED
57	036470	GITANSH RAJ BUILDERS PRIVATE LIMITED
58	042401	RAGAVI FARMS AND AGRO DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
59	028140	OM GANESHA BREEDING AND PASHUPALAN KENDRA PRIVATE LIMITED
60	037084	PARADISE BUILDESTATES PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Notice under Rules 37(3) of LLP Rule, 2009

Bangalore-34, the 2015

No.ROCB/LLP /STRIKING OFF (KN)/2015, dated 27.5.2015 —Notice is hereby given pursuant to Rule-37(3) of LLP rules, 2009 that the names of the LLP (which has made application in form -24 to the Registrar under LLP Act 2008 for striking of name) has been struck off from the Register and the said LLP is dissolved w.e.f. the date of publication of this notice in official Gazette :—

LLP IN	LLP Name
AAA-0232	COUNTERPOINT CONSULTANTS (INDIA) LLP

KEERTHI THEJ. N
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Coimbatore-641005, the 12th June 2015

No.ROC /CBE/560(5)/FTE-2015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies Act, 1956 that the name of the following companies have been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said companies stand dissolved:—

Sl.No	CIN Number	Name of the Companies
1	U45302TZ1992PLC003850	Sri Ramakrishna Hi-Tech Limited
2	U51909TZ2006PTC012456	Aifil Exports India Private Limited
3	U74910TZ2006PTC013169	Artemis HR Services Coimbatore Private Limited
4	U17111TZ2006PTC013191	Sree Guru Textile Mills Private Limited
5	U72200TZ2007PTC013770	Sri Sudarsan I-Tech Solutions Private Limited
6	U63033TZ2007PTC013941	Ramnad Airport Private Limited
7	U29200TZ2007FTC014089	Sider Metal Private Limited
8	U17111TZ2008PTC014142	Premier Fine Yarns Private Limited

Sl.No	CIN Number	Name of the Companies
9	U21012TZ2009PTC015097	Seemaa Paper Board Limited
10	U50102TZ2009PTC015380	Covai Car Craft India Private Limited
11	U52341TZ2009PTC015641	Chaya Agencies (India) Private Limited
12	U40108TZ2011PTC016661	Deivam Energy Private Limited
13	U74999TZ2011PTC016850	NR Center for Industrial and Technical Audit Private Limited
14	U40108TZ2011PTC017033	RCC Energy and Infra Private Limited
15	U51420TZ2011PTC017375	Amalgamated Alloys Private Limited
16	U29253TZ2011PTC017582	Kovai Magnum Valves Private Limited
17	U72200TZ2011PTC018109	Aaraa IT Consultancies Private Limited
18	U72200TZ2012PTC018309	Invatrack Solutions Private Limited
19	U93000TZ2012FTC018784	Appropriate IT Career Development Academy Private Limited
20	U15543TZ2013PTC019205	Nakoda Aqua Private Limited
21	U72400TZ2013PTC019893	PH4Global Solutions Private Limited

N. RAMANATHAN
REGISTRAR OF COMPANIES
TAMILNADU

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in